

प्रेस विज्ञप्ति

## जामिया के हिंदी विभाग की पत्रिका 'मुजीब' का लोकार्पण

हिंदी विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया की त्रैमासिक पत्रिका 'मुजीब' का आज लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता जामिया के कुलसचिव डॉक्टर नाजिम हुसैन जाफरी ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे शामिल रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में मानविकी एवं भाषा संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद असदुद्दीन उपस्थित रहे। लोकार्पण कार्यक्रम में हिंदी विभाग के साथ साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कई विभागों के प्राध्यापकों और शोधार्थियों ने हिस्सा लिया।

कार्यक्रम का प्रारंभ हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इंदु वीरेंद्रा द्वारा अतिथियों के स्वागत से हुआ। उन्होंने विभाग की स्वर्णिम यात्रा की एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। पत्रिका की संरक्षक जामिया की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर का धन्यवाद करते हुए उन्होंने बताया कि हिंदी विभाग के पहले प्रोफेसर एवं अध्यक्ष प्रोफेसर मुजीब रिजवी के नाम पर पत्रिका का नाम रखा गया है।

कार्यक्रम में प्रोफेसर मुजीब रिजवी का परिवार भी शामिल हुआ। अतिथियों द्वारा पत्रिका के लोकार्पण के बाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जामिया के कुलसचिव डॉक्टर नाजिम हुसैन जाफरी ने हिंदी विभाग की सराहना की और पत्रिका और विभाग के लिए अपनी शुभकामनाएं दी।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने पत्रिका के लोकार्पण के साथ विभागीय गतिविधियों की सफलता की कामना की। उन्होंने प्रोफेसर मुजीब रिजवी को याद करते हुए उनकी स्मृति में प्रकाशित पत्रिका 'मुजीब' को उनकी विरासत के लिए आवश्यक माना।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि संकायाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद असदुद्दीन ने पत्रिका के प्रकाशन और लोकार्पण के लिए हिंदी विभाग को बधाई देते हुए पत्रिका के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर दुर्गाप्रसाद गुप्ता और संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जय प्रकाश नारायण ने भी पत्रिका के लिए विभाग को शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉ मुकेश कुमार मिरोठा ने किया।

**जनसंपर्क कार्यालय**

जामिया मिल्लिया इस्लामिया



हिंदी विभाग  
जामिया मिल्लिया इस्लामिया  
द्वारा आयोजित

"मुजीब" पत्रिका का  
लोकार्पण कार्यक्रम  
दिनांक- 07-09-2021  
समय- 11.00 AM



स्वागत- प्रो. इंदु वीरेंद्रा

<https://meet.google.com/mfj-udgd-cdu>



मुख्य अतिथि-  
पद्मश्री प्रो. अख्तरुल वासे



अध्यक्षता-  
डॉ. नाज़िम हुसैन जाफरी  
कुलसचिव



विशेष अतिथि- प्रो. मोहम्मद असदुद्दीन  
संकायाध्यक्ष  
मानविकी एवं भाषा संकाय

Jamia Millia Islamia Mail Meet - विभाग द्वारा प्रकाशित यु... EN (English - United States)

meet.google.com/mjf-udgd-cdu?authuser=0&hl=en

PROF. AKHTAR... Prof. Durga Pr... HoD, Hindi, JMI Dr. Anil Kumar ... Dr. Nazim Hus... M Asaduddin Anusha Rizvi Dr. Asif Umar (... mahmood faro... Prof. Kahkasha...

HoD, Sanskrit mohd lateef Dr. A. R. Musaw... Rukaiyya Khana... Yashpal (Hindi T... Sayed Amina MEERA rizvi fiza bano mohsina bano Suman Kumari

kavita sharma MUKUL RANJA... Zuhaib Shabab ... HoD, History & ... Andaleeb Alam Ajay Kumar Na... Umme Habiba Dileep Shakya (... chandradev ya... Ritambhara Ma...

varun bharti Haroon Ansari Sunil Yadav Prof. Neeraj Ku... sundram anand Nazma Hashmi shaheen khan Kamran Wasey azam sheikh Sonam Khan

Rushmae Kabir Moyab Khan Bhai naveen chandra Sushil K HoD, Arabic, JMI Rajat Sharma Sana Khan 7 others You

11:08 AM | विभाग द्वारा प्रकाशित 'युवी' पत्रिका का लोकार्पण


Type here to search 33°C AQI 239 11:08 AM 9/7/2021




Mukesh Kumar




PROF. AKHTARUL




Dr. Nazim Hussain



HoD,



You



Dr. Anil | 56 others